



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 24]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 13—जून 19, 2009 (ज्येष्ठ 23, 1931)

No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 13—JUNE 19, 2009 (JYAISTHA 23, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 2

## [PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली-110004, दिनांक 13 मई 2009

सं. ए-34011/4/06-प्रशासन--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को 05 मई 2009 के पूर्वाह्न से राष्ट्रपति सचिवालय में अवर सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम
1.	श्री एच. एस. रावत
2.	श्रीमती एच. आर. कोहली

एफ. ए. किदवाई, उप सचिव

सं. ए-34011/4/06-प्रशासन--राष्ट्रपति, निम्नलिखित सहायकों को 5 मई 2009 के पूर्वाह्न से राष्ट्रपति सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम
1.	श्री भीखू राम
2.	श्री आर. के. राजपूत

एफ. ए. किदवाई, उप सचिव

नई दिल्ली-110004, दिनांक 21 मई 2009

सं. ए-36011/56/06-प्रशा.--श्री उमेश कुमार आहूजा, संरक्षण सहायक, राष्ट्रीय संग्रहालय को दिनांक 27.04.2009 पूर्वाह्न से तीन वर्ष, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए राष्ट्रपति सचिवालय में प्रतिनियुक्ति पर वरिष्ठ तकनीकी रिस्टर के रूप में नियुक्त किया जाता है।

राजकुमार, अवर सचिव (प्रशा.)

मंत्रिमंडल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 अप्रैल 2009

सं. ए-19014/01/2009-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, विकास आयुक्त का कार्यालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में उप निदेशक (रसायन) श्री मलिक अकरमुद्दीन को राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार समझौता, मंत्रिमंडल सचिवालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर 15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन के संशोधित वेतन बैंड पीबी-3 में 01 अप्रैल, 2009 के पूर्वाह्न से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उप निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. कृष्णामूर्ति, अवर सचिव

दिनांक 19 मई 2009

सं. ए-19011/01/2009-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, अग्नि, विस्फोटक एवं पर्यावरण सुरक्षा केन्द्र, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, दिल्ली में कार्यरत श्री जे. एस. नोते, वैज्ञानिक 'ई' को राष्ट्रीय प्राधिकरण, रासायनिक हथियार समझौता, मंत्रिमंडल सचिवालय में 01 मई, 2009 के पूर्वाह्न से प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति आधार पर 37,400--67,000/- रुपए के संशोधित वेतन बैंड पीबी-4 + 8,900/- रुपए ग्रेड वेतन में सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. कृष्णामूर्ति, अवर सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560231, दिनांक 26 मई 2009

सं. 6/1(1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस. एफ. को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस. जी. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं. अधिकारी का नाम

श्री/श्रीमती/कु.

1. जे. के. होट
2. डी. आर. गांधी
3. ए. एस. बुच
4. आर. जी. जलवाडिया
5. डॉ. अंजली एस बहुगुण
6. देबज्योती धार
7. ए. एस. पटेल
8. डॉ. हरीश एस. भट्ट
9. के. एन. पडिया
10. किशोरी लाल शाह
11. एच. के. दवे

मनोहर एल. वाणियार, उप सचिव

सं. 6/1(1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस. सी. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 29.09.2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं. अधिकारी का नाम

श्री/श्रीमती/कु.

1. समिधा जैन
2. अनंत दामले
3. सतीश बी. शर्मा

मनोहर एल. वाणियार, उप सचिव

सं. 6/1(1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस. सी. को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस. डी. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं. अधिकारी का नाम

श्री/श्रीमती/कु.

1. डॉ. रमेश चन्द्र गुप्त
2. जिमित गधिया
3. देवन्द्र कुमार शर्मा
4. मनिश सोनर
5. गीता एन. पटेल
6. श्रुति कवाडिया
7. जितेन्द्र कुमार
8. पटेल नैमेश रमणभाई
9. पियूष सिन्हा
10. प्रन्तीक चक्रवर्ती
11. घनश्याम संगर
12. अमित ए. सिन्हा
13. मोहन लाल कतारा
14. कीर्ती नेमा
15. रामगिरी संतोष कुमार
16. केया शुक्ला
17. विक्रान्त सिंह
18. प्रणव कुमार पाण्डे
19. रजनीकान्त

मनोहर एल. वाणियार, उप सचिव

सं. 6/1(1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस. डी. को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस. ई. के पद पर स्थानापन्न रूप में

दिनांक 01.01.2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम
1.	श्री/श्रीमती/कु. सम्मीर सखरे
2.	समृति कुमार गर्ग
3.	यू. बी. देसाई
4.	एम. आर. पटेल
5.	के. कार्तिक
6.	संपा राय
7.	ई. गीता ससीन्द्रन
8.	डी. जी. सम्मारिया
9.	परेश आर. सरवय्या
10.	डी. जी. राथोड
11.	सतीश एस. राव
12.	सोमेन्द्र प्रताप सिंह
13.	सत्य सोम शेखर के.
14.	विशाल अग्रवाल
15.	आर. ए. धोलारिया
16.	पी. वी. षण्मुगम
17.	एम. एम. परमार
18.	रेखा देशपाण्डे

मनोहर एल. वाणियार, उप सचिव

सं. 6/1(1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1	2	3	4
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	डॉ. के. एस. दासगुप्ता	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एच	विशिष्ट वैज्ञानिक
2.	डॉ. प्रदीप के. पॉल	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-जी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एच
3.	डॉ. अभिजित सरकार	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-जी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एच

1	2	3	4
4.	वी. के. जैन	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-जी
5.	साजी ए. कुरियकोसे	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-जी
6.	निलेश एम. देसाई	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-एस.जी	वैज्ञानिक/ इंजीनियर-जी

मनोहर एल. वाणियार, उप सचिव

सं. 6/1(1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस.ई. को वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस.एफ. के पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 1.01.2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम
	श्री/श्रीमती/कु.
1.	कमल कुमार पोद्दार
2.	पिनाकिन पी. थाकर
3.	एस. एम. त्रिवेदी
4.	डॉ. बिमल कुमार भट्टाचार्या
5.	कमलेश एम. राणा
6.	एस. के. साजिद महम्मद
7.	विनोद जोशी
8.	दिनेश कुमार अग्रवाल
9.	अरुण बिन्दाल
10.	के. सी. परगेचिन
11.	जे. वी. मूर्ति

मनोहर एल. वाणियार, उप सचिव

सं. 6/1(2)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में श्री नीरज अग्रवाल, वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी. का सेवा से त्याग-पत्र दिनांक 16.01.2009 के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

मनोहर एल. वाणियार, उप सचिव

सं. 6/1(2)/2009-I--अन्तरिक्ष विभाग के अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र, अहमदाबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों ने अपने निवर्तन आयु

प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्रत्येक के सामने दिये गये पदों और दी गई तारीखों के अपराह्न से कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्र. सं.	नाम	पद	कार्यमुक्ति की तिथि
श्री/श्रीमती/कु.			
1.	सुफल कुमार बन्दोपाध्याय	वैज्ञानिक/इंजीनियर-जी	31.01.2009
2.	डी. आई. जोशी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ	31.12.2008
3.	नलिन पी. पाण्डेय	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई	31.12.2008

मनोहर एल. वाणियार, उप सचिव

सं. 9/1(1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इन्सैट-मुख्य नियंत्रण सुविधा, हासन में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पद पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.01.2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करती है :--

क्र. सं.	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई
श्री/श्रीमती/कु.		
1.	रत्नाकर के.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी
2.	एम. जयप्रकाश	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
3.	टी. आर. सुदर्शन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
4.	जावेद सर खरेशी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई
5.	देविका पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी
6.	सुकन्या बी. एल.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी
7.	के. दुर्योधन पात्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी
8.	सन्तोष के. एम.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी

मनोहर एल. वाणियार, उप सचिव

सं. 9/1(1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इन्सैट-मुख्य नियंत्रण सुविधा, हासन में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करती है :--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति का दिनांक
1	2	3
श्री/श्रीमती/कु.		
1.	विपिन अग्रवाल	15.12.2006
2.	किरण के. पी.	16.12.2006
3.	अश्वनी कुमार	16.12.2006
4.	गिरीश एम.	09.04.2007
5.	रेवन कुमार अरलीमट्टी	26.09.2007
6.	मयंक कुमार भारद्वाज	25.09.2007

1	2	3
7.	अविनाश एम.	29.09.2007
8.	तृप्ति श्रीवास्तव	26.09.2007
9.	किस्तय्या बी.	27.09.2007
10.	सेन्थिल कुमार आर.	11.02.2008
11.	हृदेश कुमार	12.02.2008
12.	मणिकंठन पी.ई.	14.12.2008
13.	वैभव बर्गाले	29.09.2008
14.	नीरज कुमार पाण्डे	29.09.2008
15.	राकेश कुमार	29.09.2008
16.	सचिन कुमार मालवीय	29.09.2008
17.	मोहित भाटिया	29.09.2008
18.	हिमान्तु कुमार	29.09.2008

मनोहर एल. वाणियार, उप सचिव

सं. 9/1(1)/2009-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इन्सैट-मुख्य नियंत्रण सुविधा, हासन में निम्नलिखित व्यक्तियों को क्रय एवं भण्डार अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करती है :--

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति का दिनांक
श्री/श्रीमती/कु.		
1.	एम. आर. एस. प्रसन्ना	30.07.2008
2.	भास्कर सिद्धान्ति	31.07.2008

मनोहर एल. वाणियार, उप सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय  
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 2009

सं. ए. 12025/3/2008-वि.सा.प्र.(प्र.)--राष्ट्रपति द्वारा श्रीमती सरस्वती विश्वनाथन विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय में प्रकाशन-सह-विक्रय प्रबंधक, वेतन बैंड-3, वेतनमान 15,600/-—39,100/- रुपए जमा ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए के पद पर की गई तदर्थ नियुक्ति की अवधि एक मास और पंद्रह दिन अर्थात् अपराह्न 30 जून, 2009 तक और बढ़ाई जाती है।

2. श्रीमती सरस्वती विश्वनाथन की उपर्युक्त नियुक्ति से वे न तो प्रकाशन-सह-विक्रय प्रबंधक के ग्रेड में अपनी ज्येष्ठता का कोई दावा कर पाएंगी और न ही उनके द्वारा उस पद पर की गई सेवा को प्रकाशन-सह-विक्रय प्रबंधक के पद पर उनकी नियमित आधार पर नियुक्ति के लिए गणना में लिया जाएगा।

कुलदीप कुमार, उप सचिव

## विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 2009

सं. ए-12023/17/1995-प्रशा. III (वि.का.)--राष्ट्रपति, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 252 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर अपील अधिकरण में न्यायिक सदस्य श्री पी. मोहनराजन को दिनांक 18 मई, 2009 के पूर्वाह्न से अधिवर्षिता की आयु अर्थात् 62 वर्ष की आयु होने तक आयकर अपील अधिकरण में रु. 24,050-650-26,000/- के वेतनमान (संशोधन-पूर्व) में उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. ए. खौं यूसुफी, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

दिनांक 29 मई 2009

सं. ए-12023/22/1997-प्रशा. III (वि.का.)--आयकर अपील अधिकरण सदस्य (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 1963 के नियम 11 में यथाविनिर्दिष्ट अधिवर्षिता की आयु होने पर, आयकर अपील अधिकरण में न्यायिक सदस्य श्री हेमन्त सौसरकर दिनांक 4 अप्रैल, 2009 (04.04.2009) के अपराह्न को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एम. ए. खौं यूसुफी, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 मई 2009

सं. ए-32011/1/2008-एलसी--राष्ट्रपति, भारत के विधि आयोग में सहायक विधि अधिकारी श्री ए. के. उपाध्याय को दिनांक 14 मई, 2009 से अगले छह महीने की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, भारत के विधि आयोग में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड वेतन रु. 7,600/- में उप विधि अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. चौधरी, अवर सचिव

## गृह मंत्रालय

## अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून 2009

ए-38011/4/2008-अं.रा.प.--अधिवर्षिता की आयु पूर्ण होने पर, श्री एम. रामलिंगम, उप सचिव (सी.एस.एस.), अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय, गृह मंत्रालय दिनांक 31 मई, 2009 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

का. प्र. मिश्रा, निदेशक

## कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

## (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 मई 2009

सं. ए-32013/2/2008/-प्रशा. I--राष्ट्रपति, मो. मोनिरुज्जामन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में, वेतन बैंड-3 (पी.बी.-3)

15,600-39,100+6,600. (ग्रेड वेतन) रु. में दिनांक 5 मई, 2009 से अगले आदेशों तक अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

हरीश चन्द्र, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई 2009

सं. 13017/10/2007-अ.भा.से.(I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और तमिलनाडु सरकार तथा संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी होने के नाते गृह मंत्रालय की सम्मति से केन्द्र सरकार एतद्द्वारा श्री आर. लालवेना, भा.प्र.से. (तमिलनाडु: 01) की तमिलनाडु संवर्ग से ए.जी.एम.यू.टी. संवर्ग (मिजोरम) में अंतर-संवर्ग प्रतिनियुक्ति को उनके द्वारा पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

आर. के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 21 मई 2009

सं. 13017/4/2007-अ.भा.से.(I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा बिहार और केरल की सरकारों की सहमति से, केन्द्र सरकार, श्री मिनहाज आलम, भा.प्र.से. (केरल: 96) को केरल के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग से बिहार के प्रशासनिक सेवा संवर्ग में दी गई अंतः संवर्ग प्रतिनियुक्ति को उनके बिहार सरकार में ज्वाइन करते की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, एतद्द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हैं।

आर. के. गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 22 मई 2009

सं. 13017/52/2008-अ.भा.से.(I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सरकारों की सहमति से, केन्द्र सरकार सुश्री कामनी चौहान रतन, भा.प्र.से. (उत्तर प्रदेश:97) को उत्तर प्रदेश संवर्ग से मध्य प्रदेश संवर्ग में दी गई अंतः संवर्ग प्रतिनियुक्ति को पद ज्वाइन करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, एतद्द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हैं।

आर. के. गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 2009

सं. 14012/15/2008-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य संवर्ग के 2004 बैच के भारतीय

प्रशासनिक सेवा के सदस्य श्री कुंदन कुमार को दिनांक 06.09.2006 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

सं. 14012/16/2008-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के आंध्र प्रदेश राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :--

क्र.सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1.	सुश्री स्मिता सभरवाल	2001	02.09.2003
2.	श्री सिद्धार्थ जैन	2001	02.09.2003
3.	डॉ. क्रिस्टिना जैड. चोंथु	2001	02.09.2003
4.	सुश्री नीतू कुमारी प्रसाद	2001	06.09.2003
5.	श्री सी. सुदर्शन रेड्डी	2002	02.09.2004
6.	डॉ. ज्योति बुद्ध प्रकाश	2002	02.09.2004
7.	श्री सौरभ गौर	2002	02.09.2004
8.	श्री बाबू ए.	2003	01.09.2005
9.	श्री कोना ससीधर	2003	01.09.2005
10.	सुश्री योगिता राणा	2003	01.09.2005
11.	श्री लोकेश कुमार डी. एस.	2003	16.12.2006
12.	श्री भास्कर काटाम्पेनी	2004	06.09.2006
13.	श्री प्रद्युम्न पी. एस.	2004	06.09.2006

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

दिनांक 29 मई 2009

सं. 14012/02/2008-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के असम-मेघालय राज्य संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं :--

क्र.सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण की तिथि
1	2	3	4
1.	श्रीमती अवन्तिका सिंह औलख	2003	01.09.2005 (अब गुजरात संवर्ग में)
2.	श्री जयन्त नरलिकर	2003	01.09.2005
3.	श्री पी. अशोक बाबू	2003	01.09.2005
4.	श्री डी. विजय कुमार	2004	06.09.2006

1	2	3	4
5.	श्री संजय गोयल	2004	06.09.2006
6.	श्री शांतनु पी. गोटेमारे	2004	06.09.2006
7.	श्री एस.एस. मीनाक्षी सुन्दरम	2004	06.09.2006
8.	श्री खडे नीतिन कुमार शिवदास	2004	06.09.2006
9.	श्रीमती अरुणा रजौरिया	2004	06.09.2006

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 मार्च 2009

सं. 05/पी.बी.-I/2009--भा.वि.से. (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II और III के अधिकारी श्री दलीप कुमार (जन्म तिथि : 22.11.1953), सीसीएस पेंशन नियमावली के नियम 48 के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति हेतु उनके अनुरोध को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप 17 नवंबर, 2008 के पूर्वाह्न में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

भास्कर भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी (पी.बी.-I व III)

सं. 06/पी.बी.-I/2009--राष्ट्रपति, मंत्रालय के दिनांक 19 मार्च, 2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या क्यू/सीएडी/611/01/2005 के अनुसार भा.वि.से. (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड-IV, भा.वि.से. (ख) के आशुलिपिक संवर्ग के ग्रेड-II तथा भा.वि.से. (ख) के साइफर संवर्ग के ग्रेड-II के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे उल्लिखित तारीख से भा.वि.से. (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II व III में स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि	पदोन्नति की तारीख
सर्वश्री			
1.	राजीव कुमार	28.11.70	09.02.2009
2.	अनिरुद्ध दास	20.06.71	09.02.2009
3.	कृष्णेन्दु बनर्जी	04.10.69	09.02.2009
4.	नारायण सिंह	19.08.71	09.02.2009
5.	परमजीत सिंह	28.06.74	09.02.2009
6.	जितेन्द्र सिंह रावत	01.06.71	09.02.2009
7.	दीपक	01.04.74	09.02.2009
8.	शुबन कृषेन	15.03.73	24.02.2009
9.	अरुण कुमार साहा	13.05.73	09.02.2009
10.	चंद्रमौली कुमार कर्ण	01.03.73	09.02.2009
11.	संदीप चौधरी	05.04.72	09.02.2009
12.	राकेश मोहन	16.08.72	09.02.2009

2. उपर्युक्त नामित अधिकारियों ने अपने नाम के आगे उल्लिखित तारीख से अनुभाग अधिकारी का पदभार ग्रहण कर लिया है।

भास्कर भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी (पी.बी.-I व III)

सं. 07/पी.बी.-I/2009--विदेश मंत्रालय में भा.वि.से.(ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II और III के अधिकारी श्री विककी कक्कर (जन्म तिथि : 15.10.1962) का 25 मार्च, 2009 को हुए दुःखद देहांत की घोषणा करते हुए खेद है। अतः उनका नाम मंत्रालय की नामावली से हटा दिया गया है।

भास्कर भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी (पी.बी.-I व III)

दिनांक 1 अप्रैल 2009

सं. 08/पी.बी.-I/2009--भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत ग्रेड-II और III के अधिकारी श्री नरेंद्र शर्मा (जन्म तिथि : 26.09.1950), सीसीएस पेंशन नियमावली के नियम 48 के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अपने अनुरोध को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप 01.04.2009 के पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं तथा 01 अप्रैल, 2009 के पूर्वाह्न से विदेश मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

भास्कर भट्ट, प्रशासनिक अधिकारी (पी.बी.-I व III)

वित्त मंत्रालय  
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 2009

सं. ए.19011/6/2009-प्रशा.2--राष्ट्रपति, श्री प्रभात कुमार मिश्रा, भा.प्र.से. (प.बं. : 93) को 25 मई, 2009 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. रामकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 मई 2009

सं. ए.22011/1/2009-प्रशा.1ए--राष्ट्रपति, भारतीय आर्थिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) स्तर की अधिकारी, सुश्री मनीषा सेनसरमा को 7,600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 में 8 मई, 2009 के अपराह्न से और अगले आदेशों तक वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में उप आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

दिनांक 21 मई 2009

सं. ए.12011/4/2008-प्रशा.1ए--राष्ट्रपति, श्रीमती दक्षिता दास (आईआरएस : 86) को 10,000/- रु. ग्रेड वेतन (संशोधित) सहित

37,000--67,000/- रु. के वेतनमान में 14.05.2009 के अपराह्न से 11.10.2009 तक अथवा अगले आदेशों तक वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्त करते हैं।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

दिनांक 25 मई 2009

सं. ए.12011/15/08-प्रशा.1ए--इस विभाग की दिनांक 16 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. ए.-12011/15/08-प्रशा.1ए के अनुक्रम में, श्री एम. वी. वासुदेवन की वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 15,600--39,100/- रु. + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन (10,000--15,200/- रु. पूर्व संशोधित) के वेतन बैंड-3 में उप निदेशक (डीएमओ), समूह 'क' राजपत्रित के पद पर प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल 31.03.2009 से 26.02.2010 तक की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाता है।

नीलम वोहरा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून 2009

सं. 6/3/2004-एमआई-II--श्री प्रणव मुखर्जी, वित्त मंत्री, भारत सरकार को 25 मई, 2009 से श्री पी. चिदम्बरम के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी), अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए), अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) और बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एमआईजीए) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भारत के गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है।

सौम्य चट्टोपाध्याय  
अवर सचिव (एमआई)

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च 2009

सं. ए.-12/4/2009-डीआरटी--केन्द्र सरकार, श्री एस. के पांडेय, उप-निदेशक, रक्षा मंत्रालय को प्रतिनियुक्ति आधार पर, 15,600-39,100/- रु. के पे बैंड 3 में, 6,600/- रु. की ग्रेड पे सहित, दिनांक 02.02.2009 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण-1, अहमदाबाद में वसूली अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, उप सचिव

दिनांक 27 मार्च 2009

सं. ए.-11/4/2009-डीआरटी--केन्द्र सरकार, श्री भानु प्रताप सिंह, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (प्रक्षेप), केन्द्रीय न्याय विज्ञान प्रयोगशाला, चण्डीगढ़ को प्रतिनियुक्ति आधार पर, 15,600-39,100 रु. के पे बैंड-3 में 6,600/- रु. की ग्रेड पे सहित, दिनांक 06.02.2009 (पूर्वाह्न) से

तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण-II, चंडीगढ़ में सहायक पंजीयक के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, उप सचिव

सं. ए-12/3/2009-डीआरटी--केन्द्र सरकार, डॉ. राम प्रवेश शर्मा, मुख्य प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक को प्रतिनियुक्ति आधार पर, 15,600-39,100 रु. के पे बैंड 3 में 66,00/- रु. की ग्रेड पे सहित, दिनांक 07.11.2008 (पूर्वाह्न) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली में वसूली अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है।

ए. थॉमस, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 2009

सं. ए-12026/3/2006-डीआरटी--ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नै के अध्यक्ष न्यायमूर्ति टी. वी. मसीलामणि, 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर, 29 मई, 2009 (अपराह्न) से अध्यक्ष के पद पर कार्यभार छोड़ देंगे।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 8 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, मुम्बई के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अल्लाह रहम को तत्काल प्रभाव से, अगला आदेश होने तक, ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, चेन्नै का भी कार्यभार वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

वी. पी. भारद्वाज, निदेशक

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 2009

सं. पी.एफ.जी.(2193)/प्रशा.1/2009--वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में सी.एस.एस. संवर्ग के अनुभाग अधिकारी, श्री बी. एम. सिंह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 मई, 2009 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होते हैं।

2. इसी तारीख से उनका नाम विभाग के पत्रक से काट जाया जाता है।

मीताली घोष, अवर सचिव

सं. पी.एफ.जी.(2256)/प्रशा.1/2009--वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में सी.एस.एस. संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, श्री ए. के. कक्कड़ अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31 मई, 2009 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होते हैं।

2. इसी तारीख से उनका नाम विभाग के पत्रक से काट जाया जाता है।

मीताली घोष, अवर सचिव

सं. ए-12026/5/2007-प्रशा.1--राष्ट्रपति, श्री श्रीकांत वलगाड, भा.प्र.सेवा (हरियाणा : 91) को पांच वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर 29 मई, 2009 के पूर्वाह्न से अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 37,400--67,000/- + 8,700/- रु. (ग्रेड वेतन), वेतन बैंड-4 में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

दिनांक 1 जून 2009

सं. ए-12023/2/2004-प्रशा.11--राष्ट्रपति, दिनांक 31.03.2009 के आदेश सं. 12016/2/2009-एस.एस.एस. के तहत सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से स्थानांतरण के परिणामस्वरूप अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा के श्री मदन मोहन, सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-1 को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 9,300--34,800/- रुपए के वेतन बैंड-2 में 4,600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित दिनांक 28.05.2009 की पूर्वाह्न से वरिष्ठ अन्वेषक के पद पर नियुक्त करते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अप्रैल 2009

सं. ए-42011(4)/2006-स्था.--राष्ट्रपति, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के उद्यमों हेतु राष्ट्रीय आयोग में पूर्ण कालिक सदस्य के रूप में कार्यरत प्रो. रवि शंकर श्रीवास्तव की प्रतिनियुक्ति की अवधि को दिनांक 01.04.2009 से 30.04.2009 तक या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

पी. एस. वर्मा, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 2009

सं. ए-12011/8/2006-प्रशासन--इस विभाग के दिनांक 26 मार्च, 2009 के कार्यालय आदेश संख्या 18/2009 के क्रम में राष्ट्रपति, उपभोक्ता मामले विभाग में नियमित विधिक माप विज्ञान सहायक श्री अंशुल सिंह को दिनांक 28 अप्रैल, 2009 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से उनको नियमित आधार पर नियुक्त कर लिए जाने तक या आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, क्षेत्रीय निर्देश मानक प्रयोगशाला, गुवाहाटी में 15,600--39,100/- रुपए (पी बी-3) के वेतन बैंड और 5,400/- रुपए के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (विधि माप विज्ञान) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से श्री अंशुल सिंह को सहायक निदेशक (विधिक माप विज्ञान) के ग्रेड में नियमित पदोन्नति, वरीयता आदि का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव



## खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई 2009

सं. 6-1/2006-बी.पी.-2(अधिसूचना)--पी.यू.सी.एल. बनाम भारत संघ की 2001 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 196 में दिनांक 12.07.2006 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उचित कार्यकरण को प्रभावित कर रही कमियों की जांच करने के लिए दिनांक 01.12.2006 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा न्यायमूर्ति डी. पी. वधवा की अध्यक्षता में केन्द्रीय सतर्कता समिति का गठन किया गया था। केन्द्रीय सतर्कता समिति का कार्यकाल उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार दिनांक 08.05.2007 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा 31.08.2007 तक बढ़ाया गया था। केन्द्रीय सतर्कता समिति का कार्यकाल दिनांक 13.02.2008 की समसंख्यक अधिसूचना द्वारा 11.01.2008 से और 6 माह के लिए बढ़ाया गया था और 08.04.2008 की समसंख्यक अधिसूचना के जरिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 01.09.2007 से 10.01.2008 तक की बीच की बढ़ाई गई अवधि को केन्द्रीय सतर्कता समिति के बड़े हुए कार्यकाल के रूप में माना गया था। उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 11.07.2008 के निर्देशों के अनुसार दिनांक 18.07.2008 की समसंख्यक अधिसूचना के तहत केन्द्रीय सतर्कता समिति का कार्यकाल अप्रैल, 2009 तक बढ़ा दिया गया था।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने 17.04.2009 के अपने आदेश के जरिए केन्द्रीय सतर्कता समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय को बढ़ाकर दिसम्बर, 2009 तक कर दिया है। अतः केन्द्रीय सतर्कता समिति का कार्यकाल दिसम्बर, 2009 तक बढ़ाया जाता है।

डॉ. भगवान सहाय, संयुक्त सचिव

## पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 मई 2009

सं. ए-19011/01/2008-भा.व.से.-I--भारतीय वन सेवा, उड़ीसा संवर्ग के आबंटन वर्ष 1972 के भारतीय वन सेवा अधिकारी श्री पी.आर. मोहंती जो इस समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में वन महानिदेशक और भारत सरकार के विशेष सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं, 31 मई, 2009 अपराह्न को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

ए. के. लाल, निदेशक

दिनांक 12 मई 2009

सं. ए-12012/03/2009-पी-II(.)--राष्ट्रपति, पर्यावरण और वन मंत्रालय में श्री ए.ए. राव, आई.आई.एस. (87) को निदेशक के रूप में, 8700/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित, वेतन बैंड-4, 37400-67000/- रुपये के वेतनमान में, 1 मई, 2009 (पूर्वाह्न) से 05.07.2011 तक की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं। उनका कार्यकाल, केन्द्र में मंत्री के निजी सचिव के रूप में और उप सचिव/निदेशक के रूप में अनुमेय सात वर्षों के सम्मिलित कार्यकाल के अंदर होगा।

प्रेमा मोहन, अवर सचिव

दिनांक 15 मई 2009

सं. ए-32012/02/2005-पी-II(.)--राष्ट्रपति, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में प्रधान निजी सचिव (तदर्थ) के पद पर कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की श्रीमती सरस्वती राजागोपालन को, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6 फरवरी, 2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/6/2004-सी एस II के अनुसरण में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की वर्ष 2004 की चयन सूची में उनका नाम शामिल हो जाने पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 6 फरवरी, 2009 से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. यह अधिसूचना दिनांक 03.03.2008 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में जारी की गई है।

प्रेमा मोहन, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 मई 2009

सं. ए-32012/02/2005-पी-II(.)--राष्ट्रपति, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में तदर्थ आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्री एच.सी. नारंग को, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 12 अगस्त, 2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/18/2005-सी एस-II के तहत वर्ष 2006 की चयन सूची में उनका नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की चयन सूची में शामिल हो जाने पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में 7,600/- रुपये के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

प्रेमा मोहन, अवर सचिव

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 26 मई, 2009

सं. ए. 38012/5/2009-सी.एच.एस. II--केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी उप-संवर्ग के अधिकारी डॉ. मनोरंजन झा, जो आर ओ एच एंड एफ डब्ल्यू, पटना में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात थे, का दिनांक 12.02.09 को कार्य करते हुए निधन हो गया।

माया प्रकाश, अवर सचिव

## स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

(प्रशासन-I अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून 2009

सं. ए-38013/3/2008-प्रशासन-I--सेवानिवृत्ति की आयु हो जाने के फलस्वरूप श्री वेद प्रकाश दूबे, अनुभाग अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय दिनांक 31-03-2009 की अपराह्न को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

आर. के. कालड़ा, उप निदेशक प्रशासन (आर.के.के.)

कृषि मंत्रालय  
(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 अप्रैल 2009

सं. 12023/10/2007-स्था. II--संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति डॉ. गोरख सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, केन्द्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान, लखनऊ को कृषि एवं सहकारिता विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 1 अप्रैल, 2009 से 5 वर्षों की अवधि के लिये या आगामी आदेशों तक, इसमें जो पहले हो, 37,400-67,000 रु. (वेतन बैंड-4, ग्रेड वेतन-10,000 रु.) के वेतनमान में बागवानी आयुक्त के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए. के. अरोड़ा, अवर सचिव

पंचायती राज मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 2009

सं. ए-19011/5/2009-स्थापना--राष्ट्रपति जी श्रीमती राजवंत संघ भ. प्र. से. (हि.प्र. : 75) 17 मई, 2009 से एवं अगले आदेशों तक पंचायती राज मंत्रालय में तत्स्थाने प्रोन्नयन करते हुए विशेष सचिव नियुक्त करती हैं।

विशेष सचिव के रूप में नियुक्ति की तिथि से वे 80,000 रु. (नियत) (अस्सी हजार रुपये मात्र) प्रति माह की दर से वेतन आहरित करेंगी।

एल. हौकिप, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 मई 2009

सं. 4-6/2004-प्रशा.--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 17 अप्रैल, 2009 के आदेश सं. 4/9/2009-ई-ओ (एस.एम.आई.) के अनुसार, डॉ. श्रीरंजन, भा. प्र. से. (ए.एम. : 85) को 19 मई, 2009 की पूर्वाह्न से 18 मई, 2014 की उपराह्न तक अथवा आगामी आदेश होने तक, जो भी पहले हो, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 37,400-67,000/- रुपये (पीबी-4) के पे बैंड+10,000/- रुपये के ग्रेड पे में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

शकुन्तला जैन, अवर सचिव

सं. 4-6/2004-प्रशासन--डॉ. (श्रीमती) लवलीन कक्कड़, भा.प्र.से. (म.प्र. 79), संयुक्त सचिव की केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति की अवधि दिनांक 16/05/2009 को पूरी हो जाने पर राष्ट्रपति उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से दिनांक 16.05.2009 के उपराह्न से कार्यमुक्त करते हैं। उन्हें, आगामी तैनाती के लिए अपने मूल संवर्ग को रिपोर्ट करने का निदेश दिया जाता है।

शकुन्तला जैन, अवर सचिव

दिनांक 29 मई 2009

सं. 4-159/87-प्रशासन--श्री अशोक कुमार गौधी, अनुभाग अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अधिवर्षिता की आयु पूरी हो जाने के

परिणामस्वरूप दिनांक 31.05.2009 उपराह्न को सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

शकुन्तला जैन, अवर सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 2009

सं. एफ. 1-18/2004-युवा सेवा-1--नेहरू युवा केन्द्र संगठन के नियमों के नियम 9 (क) के अनुसरण में श्री जगदीप सिंह चीमा को प्रतिष्ठित व्यक्तियों के अंतर्गत एक रिक्त स्थान पर भारत सरकार द्वारा नेहरू युवा केन्द्र संगठन के शासी मंडल में सदस्य के रूप में तत्काल प्रभाव से नामित किया जाता है।

2. श्री जगदीप सिंह चीमा की सदस्यता की अवधि उनके नामांकन की तारीख से तीन वर्षों तक अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए होगी। यह नेहरू युवा केन्द्र संगठन के उपनियमों और नियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन होगा।

डी. पी. भारद्वाज, उप सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल 2009

सं. ए-12025/1/95-स्था.-II--राष्ट्रपति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रेम प्रभाग में मूल वरिष्ठ अनुसंधान अन्वेषक, श्रीमती पी. राजवंशी को उस प्रभाग में 5,400/- रुपए ग्रेड वेतन के साथ 9,300--34,800/- रुपए के वेतनमान में वेतन बैंड-2 (सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित) में अनुसंधान अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर 24.4.2009 (पूर्वाह्न) से, 6 महीने की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति अनुसंधान अधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति या उस पद पर वरिष्ठता के लिए दावा करने हेतु उन्हें कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

आर. ए. सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 19 मई 2009

सं. ए-19011/5/2004-स्था.--राष्ट्रपति, श्री वी. बी. पचनन्दा, आई.ओ.एफ.एस. (90), निदेशक को उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में उन्हें दिनांक 18.5.2009 उपराह्न से कार्यभार से मुक्त करते हैं।

2. इसके अतिरिक्त श्री पचनन्दा को दिनांक 19.5.2009 से 18.6.2009 तक 31 दिन की अवधि के लिए अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उपरोक्त अवकाश के समाप्त होने पर, श्री पचनन्दा की सेवाएं मूल संवर्ग अर्थात् रक्षा मंत्रालय (आयुध निर्माण प्रकोष्ठ) के अधीन होंगी।

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

## संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 मई 2009

सं. 2(37)/76-कार्मिक-I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में वैज्ञानिक 'जी', श्री एस. रामाकृष्णन (कर्मचारी कोड सं. 69), जो इस समय उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक), पुणे में अन्य विभाग सेवा शर्तों पर प्रतिनियुक्ति आधार पर महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.5.2009 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगे।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

दिनांक 29 मई 2009

सं. 4(741)/2006-कार्मिक-I--सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव, श्री जैन्द्र सिंह, आईएएस (आंध्र प्रदेश : 1972) (कर्मचारी कोड सं. 09) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.05.2009 के अपराह्न से सेवानिवृत्त होंगे।

गिरीश सहाय, उप निदेशक

## राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 मई 2009

सं. 0555/एनआईसी/2009-प्रशासन-II--महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र ने केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियमावली, 1965 के नियम 15(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जगबीर सिंह, निजी सचिव (कर्मचारी कोड सं. 0555) पर दिनांक 29.04.2009 से अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति लगायी है।

पी. एस. पिल्लै, उप निदेशक (प्रशासन-II)

## रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 25 मई 2009

सं. 2005/ई (जी.आर.) 1/9/1--राष्ट्रपति जी, भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरी सेवा के निम्नलिखित प्रोबेशनरों को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	(सर्वश्री/श्री/कु.)	
1.	यशवीर सिंह गुलेरिया	05.09.2005
2.	विकास शिवरायन	05.09.2005
3.	बिजेन्द्र मणि त्रिपाठी	21.11.2005
4.	मनोज कुमार सिंह	22.09.2005
5.	मुदित आनंद	05.09.2005
6.	नितीन प्रकाश	05.09.2005
7.	रविन्द्र कुमार चौधरी	05.09.2005

ममता कंडवाल,  
उप निदेशक, स्था. (जी. आर.)

सं. 2004/स्था. (राज. भ.) 1/8/1--राष्ट्रपति जी, भारतीय रेल भंडार सेवा के निम्नलिखित प्रोबेशनरों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथि से सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	(सर्वश्री/श्री/कु.)	
1.	संतोष कुमार मिश्रा	10.09.2004
2.	प्रवेश कुमार	08.09.2004

ममता कंडवाल,  
उप निदेशक, स्था. (जी. आर.)

नई दिल्ली, दिनांक 27 मई 2009

सं. ई (जी. पी.)/2007/3/3--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलों के बिजली इंजीनियरी विभाग के निम्नलिखित 50 ग्रुप 'बी' अधिकारियों की, उल्लिखित रेलों पर 30.03.2009 से भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी सेवा (आई.आर. एस.ई.ई.) के कनिष्ठ वेतनमान में नियमित रूप से नियुक्ति किये जाने का अनुमोदन करते हैं :--

2008-2009 के लिए पैल

क्र. अधिकारियों का नाम

सं.

सर्वश्री

मध्य रेलवे

1. गिरीश कुमार सी. (अ. जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)  
सोलंकी (अ. जा.)

2. आई. ए. खान

आर. सी. एफ.

1. रघुवीर सिंह (अ. जा.)

डी. एल. डब्ल्यू

1. अशोक कुमार (अ. जा.) (अ. जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)  
पूर्व तटीय रेलवे

1. एस. के. जेना

2. यू. एन. मुकुट

3. आर. वी. राजा राव

4. पी. के. महापात्रा (अ. जा.) (अ. जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)  
पूर्व रेलवे

1. कुणाल मुखर्जी

2. सुभाष च. पाल

3. सौमेन साहा

4. ए. के. हल्दर (अ. जा.) (अ. जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

5. एस. पी. सेन (अ. जा.) (अ. जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

6. दिलीप सरकार (अ. जा.) (अ. जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

7. अजय कुमार (अ. ज. जा.) (अ. ज. जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

## पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे

1. ए. कुण्डु
2. डी. खली
3. ए. गुप्ता

## उत्तर रेलवे

1. विनोद सिंह चौहान
- आर. डब्ल्यू एफ.
1. आर. एन. प्रवेश राव
2. टी. जी. रमेश

## दक्षिण मध्य रेलवे

1. के. प्रेममोहन
2. ए. वी. मल्लिकार्जुना राव
3. बी. सत्यनारायणा (अ. जा.)
4. एन. गंगा राजू (अ. ज. जा.)

(अ. जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

(अ. ज. जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

## दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

1. एम. के. तिवारी
2. गीतम सिंह (अ. जा.)

## दक्षिण पूर्व रेलवे

1. ए. आर. दास
2. एस. सामन्ता
3. जे. महन्ता
4. डी. के. हाजुरा
5. एस. डी. शर्मा
6. देबजीत मिश्रा
7. जयन्त कुमार
8. बी. सी. राय (अ. जा.)
9. एस. आईन्द (अ. ज. जा.)

(अ. ज. जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

## दक्षिण रेलवे

1. एस. नसीर अहमद
2. टी. सी. जॉनसन
3. वी. ए. कुहादेवाराव (अ. जा.)
4. एस. के. नटराजन
5. सुब्रह्मनियन एम.
6. मोहनन पिल्लई के.
7. पी. के. सेल्वन (अ. ज. जा.)

(अ. ज. जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)

## पश्चिम मध्य रेलवे

1. भारत भूषण (अ. जा.) (अ. जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नति)
- पश्चिम रेलवे
1. मालविंदर सिंह
  2. एस. के. यादव
  3. एम. सी. पंचाल
  4. सुनील के. गुप्ता
  5. डी. पी. सोनी
  6. के. पी. मिश्रा

के. बी. एल. मित्तल  
सचिव/रेलवे बोर्ड

## जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 मई 2009

सं. 13/2009, फाईल संख्या 25/3/(26)/2008-स्थापना-एक--संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2007 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री अनुराग श्रीवास्तव को दिनांक 1.4.2009 पूर्वाह्न/अपराह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप क) सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड पे रु. 5,400/- के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री अनुराग श्रीवास्तव कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

के. राजप्पा, अवर सचिव

सं. 14/2009, फाईल संख्या 25/3/(24)/2008-स्थापना-एक--संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2007 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री सयैद फहीम हैदर अबीदी को दिनांक 8.4.2009 पूर्वाह्न/अपराह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप क) सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड पे रु. 5,400/- के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री सयैद फहीम हैदर अबीदी कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

के. राजप्पा, अवर सचिव

सं. 16/2009, फाईल संख्या 25/3/(7)/2008-स्थापना-एक--संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2007 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री अभिषेक गुप्ता को दिनांक 15.4.2009 पूर्वाह्न/अपराह्न से केन्द्रीय जल

आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप क) सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड पे रु. 5,400/- के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री अभिषेक गुप्ता कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

के. राजप्पा, अवर सचिव

सं. 17/2009, फाईल संख्या 25/3/(4)/2008-स्थापना-एक--संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2007 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने कुमारी लक्ष्मी कुमारी को दिनांक 31.03.2009 पूर्वाह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप क) सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड पे रु. 5,400/- के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. कुमारी लक्ष्मी कुमारी कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

के. राजप्पा, अवर सचिव

#### शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 2009

सं. ए-22017/1/2007-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, शहरी विकास मंत्रालय में वर्तमान में उप सचिव के रूप में कार्यरत डॉ. डी. सुरेश, आईएएस (एचवाई : 1995) को उनके कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् 02.03.2011 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए उनके द्वारा वर्तमान में धारित उप सचिव पद को, उनसे संबंधित व्यवस्था के रूप में निदेशक स्तर पर पदोन्नयन द्वारा 37,400--67,000/- रु. के वेतनमान/पे बैंड-4 तथा ग्रेड पे 8,700/- रु. में 01.07.2009 (पूर्वाह्न) से या पदभार ग्रहण करने की तारीख से निदेशक नियुक्त करते हैं।

एस. एन. जसरा, अवर सचिव (प्रशासन)

#### श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 2009

सं. क्यू-16012/2/2009-ईएसए(एनएलआई)--जबकि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (पंजाब संशोधन अधिनियम, 1957) के अंतर्गत वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर-24, नोएडा को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है।

और जबकि, उक्त सोसाइटी के नियमों और विनियमों के नियम-III में इसके गठन का प्रावधान है।

अब माननीय श्रम और रोजगार मंत्री के अनुमोदन से वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा की मौजूदा सामान्य परिषद् की अवधि का विस्तार 29.05.2009 से तीन माह की अवधि अथवा अगले आदेशों तक किया गया है।

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

#### खान सुरक्षा महानिदेशालय

धनबाद, दिनांक 27 मई 2009

सं. विधि/जी-22/09/319--मैं, सुरेन्द्र जीत सीबल, जो मुख्य खान निरीक्षक और खान सुरक्षा महानिदेशक के रूप में भी पदाभिहित हूँ, खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 75 के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों के आधार पर और इस विषय पर पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं को अधिकांश करते हुए, इस निदेशालय के सभी अधिकारियों को, जो मुख्य खान निरीक्षक के अधीनस्थ हैं और उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन खान निरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाते हैं, उनको संबंधित निरीक्षक अधिकारिता के भीतर जो उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अधीन घोषित की गई है किसी भी खान के स्वामी, अधिकर्ता या प्रबन्धक के विरुद्ध उक्त अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन संस्थित करने के लिए साधारण प्राधिकृत करता हूँ।

सुरेन्द्र जीत सीबल

मुख्य खान निरीक्षक और खान सुरक्षा महानिदेशक

## PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110004, the 13th May 2009

No. A-34011/04/06-Adm.—The President is pleased to appoint the following Section Officers, as Under Secretaries in the President's Secretariat with effect from the forenoon of 5th May 2009:—

Sr. No.	Name
1.	Shri H. S. Rawat
2.	Smt. H. R. Kohli

F. A. KIDWAI, Dy. Secy.

No. A-34011/04/06-Adm.—The President is pleased to appoint the following Assistants, as Section Officers in the President's Secretariat with effect from the forenoon of 5th May 2009:—

Sr. No.	Name
1.	Shri Bhikhu Ram
2.	Shri R. K. Rajput

F. A. KIDWAI, Dy. Secy.

New Delhi-110004, the 21st May 2009

No. A-36011/56/06-Adm.—Shri Umesh Kumar Ahuja, Conservation Assistant, National Museum, has been appointed as Senior Technical Restorer, President's Secretariat with effect from the forenoon of 27.04.2009 on deputation basis for a period of 3 years or until further orders, whichever is earlier.

RAJ KUMAR, Under Secy. (Admn.)

## CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 16th April 2009

No. A-19014/01/2009-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Malik Akramuddin, Deputy Director (Chemical) in the Office of the Development Commissioner, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) as Deputy Director in the revised Pay Band PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- in the National Authority, Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat on deputation basis for a period of three years with effect from the forenoon of 1st April, 2009 or until further orders, whichever is earlier.

R. KRISNAMURTHY, Under Secy.

The 19th May 2009

No. A-19014/01/2009-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri J. S. Notay, Scientist 'E' in the Centre for Fire,

Explosives and Environmental Safety, Defence Research & Development Organization, Delhi, as Advisor in the revised Pay Band PB-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,900/- in the National Authority, Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat on deputation basis for a period of one year initially with effect from the forenoon of 1st May, 2009 or until further orders, whichever is earlier.

R. KRISNAMURTHY, Under Secy.

## DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560231, the 26th May 2009

No. 6/1(1)/2009-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SF as Scientists/Engineers-SG in the Space Application Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2009 and until further orders.

Sl. No.	Name
	Shri/Smt./Kum.
1.	J. K. Hota
2.	D. R. Gandhi
3.	A. S. Buch
4.	R. G. Zalavadia
5.	Dr. Anjali S. Bahuguna
6.	Debajyoti Dhar
7.	A. S. Patel
8.	Dr. Haresh S. Bhatt
9.	K. N. Padia
10.	Kishori Lal Sah
11.	H. K. Dave

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 6/1(1)/2009-I—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the Space Application Centre, Ahmedabad of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 29.09.2008 and until further orders:—

Sl. No.	Name
	Shri/Smt./Kum.
1.	Samidha Jain
2.	Anant Damle
3.	Satish B. Sharma

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 6/1(1)/2009-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SC

as Scientists/Engineers-SD in the Space Application Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2009 and until further orders:—

Sl. No.	Name
	Shri/Smt./Kum.
1.	Dr. Ramesh Chandra Gupta
2.	Jimit Gadhia
3.	Devendra Kumar Sharma
4.	Manish Sonara
5.	Geeta N. Patel
6.	Shruti Kavdia
7.	Jitendra Kumar
8.	Patel Naimesh Ramanbhai
9.	Piyush Sinha
10.	Prantik Chakraborty
11.	Ghansham Sangar
12.	Amit A. Sinha
13.	Mohan Lal Katara
14.	Kirti Nema
15.	Ramagiri Santhosh Kumar
16.	Keya Shukla
17.	Vikrant Singh
18.	Pranav Kumar Pandey
19.	Rajnikant

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 6/1(1)/2009-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SD as Scientists/Engineers-SE in the Space Application Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2009 and until further orders:—

Sl. No.	Name
1	2
	Shri/Smt./Kum.
1.	Sammir Sakhare
2.	Samriti Kumar Garg
3.	U. B. Desai
4.	M. R. Patel
5.	K. Karthik
6.	Sampa Roy
7.	E. Geeta Saseendran

1	2
8.	D. G. Sammaria
9.	Paresh R Sarvaiya
10.	D. G. Rathod
11.	Satish S. Rao
12.	Somendra Pratap Singh
13.	Satya Soma Sekhar K.
14.	Vishal Agarwal
15.	R. A. Dholaria
16.	P. V. Shanmugam
17.	M. M. Parmar
18.	Rekha Deshpande

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 6/1(1)/2009-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers- to the posts mentioned against each in the Space Application Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2009 and until further orders:—

Sl. No.	Name	Post from which promoted	Post to which promoted
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Dr. K. S. Dasgupta	Scientist/Engineer-H	Outstanding Scientist
2.	Dr. Pradip K. Pal	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
3.	Dr. Abhijit Sarkar	Scientist/Engineer-G	Scientist/Engineer-H
4.	V. K. Jain	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
5.	Saji A. Kuriakose	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G
6.	Niles M. Desai	Scientist/Engineer-SG	Scientist/Engineer-G

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 6/1(1)/2009-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers-SE as Scientists/Engineers-SF in the Space Application Centre, Ahmedabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2009 and until further orders.

Sl. No.	Name
1	2
	Shri/Smt./Kum.
1.	Kamal Kumar Poddar
2.	Pinakin P Thaker

1	2
	Shri/Smt./Kum.
3.	S. M. Trivedi
4.	Dr. Bimal Kumar Bhattacharya
5.	Kamlesh M. Rana
6.	S. K. Sazid Mahammad
7.	Vinod Joshi
8.	Dinesh Kumar Agrawal
9.	Arun Bindal
10.	K. C. Pargaien
11.	J. V. Murthy

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 6/1(2)/2009-I—The President is pleased to accept the resignation from service of Shri Neeraj Agarwal, Scientist/Engineer-SD in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space with effect from the afternoon of 16.01.2009.

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 6/1(2)/2009-I—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Scientists/Engineers in the Space Applications Centre, Ahmedabad of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Post	Date of relief
	Shri/Smt./Kum.		
1.	Suphal Kumar Bandyopadhyay	Scientist/Engineer-G	31.01.2009
2.	D. I. Joshi	Scientist/Engineer-SF	31.12.2008
3.	Nalin P. Pandya	Scientist/Engineer-SF	31.12.2008

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 9/1(1)/2009-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the post mentioned against each in the INSAT-Master Control Facility, Hassan of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.01.2009 and until further orders:—

Sl. No.	Name	Post to which promoted
1	2	3
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Rathnakara K.	Scientist/Engineer-SG
2.	M. Jayaprakash	Scientist/Engineer-SE

1	2	3
3.	T. R. Sudarshan	Scientist/Engineer-SE
4.	Javed Sar Qureishi	Scientist/Engineer-SE
5.	Devika P.	Scientist/Engineer-SD
6.	Sukanya B. L.	Scientist/Engineer-SC
7.	K. Duryadhan Patra	Scientist/Engineer-SC
8.	Santhosh K. M.	Scientist/Engineer-SC

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 9/1(1)/2009-I—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the INSAT-Master Control Facility, Hassan of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Date on which Appointed
	Shri/Smt./Kum.	
1.	Vipin Agarwal	15.12.2006
2.	Kiran K. P.	16.12.2006
3.	Ashwani Kumar	16.12.2006
4.	Gireesh M.	09.04.2007
5.	Revankumar Aralimatti	26.09.2007
6.	Mayank Kumar Bhardwaj	25.09.2007
7.	Avinash M.	29.09.2007
8.	Tripti Srivastava	26.09.2007
9.	Kistaiah B.	27.09.2007
10.	Senthil Kumar R.	11.02.2008
11.	Hridesh Kumar	12.02.2008
12.	Manikantan P. E.	14.12.2008
13.	Vaibhav Bargale	29.09.2008
14.	Neeraj Kumar Pandey	29.09.2008
15.	Rakesh Kumar	29.09.2008
16.	Sachin Kumar Malaviya	29.09.2008
17.	Mohit Bhatia	29.09.2008
18.	Himanshu Kumar	29.09.2008

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

No. 9/1(1)/2009-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned officials to the post of



Pur. & Stores Officer in the INSAT-Master Control Facility, Hassan of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each and until further orders:—

Sl. No.	Name	Date on which Promoted
	Shri/Smt./Kum.	
1.	M. R. S. Prasanna	30.07.2008
2.	Bhaskar Siddhanti	31.07.2008

MANOHAR L. VANNIAR, Dy. Secy.

#### MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

##### (LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 15th May 2009

No. A-12025/3/08-VSP(A)—The President is pleased to extend the adhoc appointment of Smt. Saraswati Vishwanathan, Publication-cum-Sales Manager, Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Vidhi Sahitya Prakashana for a further period of one month and 15 days, till afternoon of 30th June, 2009 in the Pay Band-3, the Pay Scale of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 6,600/- or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The above appointment of Smt. Saraswati Vishwanathan will neither bestow on her any claim for her seniority in the grade of Publication-cum-Sales Manager nor the service rendered by her as such counted for her appointment in the post of Publication-cum-Sales Manager on regular basis.

KULDEEP KUMAR, Dy. Secy.

#### DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 26th May 2009

No. A-12023/17/1995-Admn. III (LA)—In exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 252 of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), the President is pleased to appoint Shri P. Mohanarajan, Judicial Member, Income Tax Appellate Tribunal as Vice President of the Income Tax Appellate Tribunal in the scale of pay of Rs. 24,050-650-26,000/- (pre-revised) with effect from the forenoon of 18th May, 2009 (18.05.2009) till the age of superannuation on attaining the age of 62 years.

M. A. KHAN YUSUFI, Jt. Secy.  
and Legal Adviser

The 29th May 2009

No. A-12023/22/1997-Admn. III (LA)—On attaining the age of superannuation as laid down in Rule 11 of the

Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963, Shri Hemant Sausarkar, Judicial Member, Income Tax Appellate Tribunal has retired from service with effect from the afternoon of 4th April, 2009 (04.04.2009).

M. A. KHAN YUSUFI, Jt. Secy.  
and Legal Adviser

#### LAW COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 20th May 2009

No. A-32011/1/2008-LC—The President is pleased to appoint Shri A. K. Upadhyay, Assistant Law Officer, in the Law Commission of India, to officiate as Deputy Law Officer (Pay Band Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 7,600/-) in the Law Commission of India, on adhoc basis, for a further period of six months with effect from 14th May, 2009, or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

D. CHOUDHURY, Under Secy.

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

##### INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 1st June 2009

No. A-38011/4/2008-ISC—On his attaining the age of superannuation, Shri M. Ramalingam, Deputy Secretary (CSS), Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs stands retired from Govt. Service with effect from the afternoon of 31st May, 2009.

K. P. MISHRA, Director

#### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

##### (DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 11th May 2009

No. A-32013/2/2008-Ad.I—The President is pleased to appoint Mohd. Moniruzzaman, as Under Secretary in the Pay Band-3 (PB-3) Rs. 15,600—39,100/- + 6,600/- (Grade Pay) in the Department of Personnel & Training with effect from the forenoon of 5th May, 2009 until further orders.

HARISH CHANDER, Under Secy.

New Delhi, the 20th May 2009

No. 13017/10/2007-AIS (I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6 (1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Govt. of Tamil Nadu and the M/o Home Affairs as the respective Cadre Controlling Authorities, Central Government hereby accords approval for the inter cadre deputation of Shri R. Lalvena, IAS (TN : 01) from Tamil Nadu cadre to AGMUT Cadre (Mizoram) for a period of

three years with effect from the date Shri R. Lalvena assumes charge of the post.

R. K. GUPTA, Under Secy.

The 21st May 2009

No. 13017/4/2007-AIS (I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6 (1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Bihar and Kerala, the Central Govt. hereby accords approval for inter cadre deputation of Shri Minhaj Alam, IAS (KL : 96) from IAS Cadre of Kerala to the IAS Cadre of Bihar for a period of three years with effect from the date of his joining the Bihar Government or until further orders, whichever is earlier.

R. K. GUPTA, Under Secy.

The 22nd May 2009

No. 13017/52/2008-AIS (I)—In exercise of the powers conferred by Rule 6 (1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Govts. of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, the Central Government hereby accords approval for the inter cadre deputation of Ms. Kamini Chauhan Ratan, IAS (UP : 97) from Uttar Pradesh Cadre to Madhya Pradesh Cadre for a period of three years from the date of assumption of the charge of the post or until further orders, whichever is earlier.

R. K. GUPTA, Under Secy.

New Delhi, the 26th May 2009

No. 14012/15/2008-AIS-III—In exercise of the powers conferred by Rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Kundan Kumar, a member of the Indian Administrative Service, borne on the Bihar Cadre of 2004 batch, in the Indian Administrative Service, with effect from 06.09.2006.

G. C. PANDEY, Under Secy.

No. 14012/16/2008-AIS-III—In exercise of the powers conferred by Rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Andhra Pradesh, with effect from the dates shown against them :—

Sl. No.	Name of the Officer	Batch	Date of Confirmation
1	2	3	4
1.	Ms. Smita Sabharwal	2001	02.09.2003
2.	Shri Siddharth Jain	2001	02.09.2003

1	2	3	4
3.	Dr. Christina Z. Chongthyu	2001	02.09.2003
4.	Ms. Neetu Kumari Prasad	2001	06.09.2003
5.	Shri C. Sudharsan Reddy	2002	02.09.2004
6.	Dr. Jyoti Buddha Prakash	2002	02.09.2004
7.	Shri Saurabh Gaur	2002	02.09.2004
8.	Shri Babu A.	2003	01.09.2005
9.	Sri Kona Sasidhar	2003	01.09.2005
10.	Ms. Yogita Rana	2003	01.09.2005
11.	Shri Lokesh Kumar D. S.	2003	16.12.2006
12.	Shri Bhaskar Katamneni	2004	06.09.2006
13.	Shri Pradyumna P. S.	2004	06.09.2006

G. C. PANDEY, Under Secy.

The 29th May 2009

No. 14012/02/2008-AIS-III—In exercise of the powers conferred by Rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Assam-Meghalaya, with effect from the dates shown against them :—

Sl. No.	Name of the Officer	Batch	Date of Confirmation
1	2	3	4
1.	Smt. Avantika Singh Aulakh	2003	01.09.2005 (Now in Gujarat Cadre)
2.	Shri Jayant Narlikar	2003	01.09.2005
3.	Shri P. Ashok Babu	2003	01.09.2005
4.	Shri D. Vijay Kumar	2004	06.09.2006
5.	Shri Sanjay Goyal	2004	06.09.2006
6.	Shri Shantanu P. Gotmare	2004	06.09.2006
7.	Shri S. S. Meenakshi Sundaram	2004	06.09.2006
8.	Shri Khade Nitin Kr. Shivdas	2004	06.09.2006
9.	Smt. Aruna Rajoria	2004	06.09.2006

G. C. PANDEY, Under Secy.

#### MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 27th March 2009

No. 05/PB-I/2009—Consequent upon acceptance of his request for voluntary retirement under Rule 48 of CCS

Pension Rules, Shri Dalip Kumar (DoB : 22.11.1953), an Officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B), has retired voluntarily from Government Service in the forenoon of 17th November, 2008.

BHASKAR BHATT, Administrative Officer  
(PB-I & III)

No. 06/PB-I/2009—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers of Grade-IV of the General Cadre of IFS (B), Grade-II of Stenographers Cadre of IFS(B) and Grade-II of Cypher Cadre of IFS (B) to officiate in the Integrated Grades II & III of the General Cadre of IFS (B) with effect from the dates shown against their names, in terms of Ministry's OM No. Q/CAD/611/01/2005 dated the 19th March, 2009:—

Sl. No.	Name	Date of Birth	Date of Promotion
	S/Shri		
1.	Rajiv Kumar	28.11.70	09.02.2009
2.	Aniruddha Das	20.06.71	09.02.2009
3.	Krishnendu Banerjee	04.10.69	09.02.2009
4.	Narayan Singh	19.08.71	09.02.2009
5.	Paramjeet Singh	28.06.74	09.02.2009
6.	Jitendra Singh Rawat	01.06.71	09.02.2009
7.	Deepak	01.04.74	09.02.2009
8.	Shuban Krishen	15.03.73	24.02.2009
9.	Arup Kumar Saha	13.05.73	09.02.2009
10.	Chandramouli Kumar Kern	01.03.73	09.02.2009
11.	Sandeep Chaudhary	05.04.72	09.02.2009
12.	Rakesh Mohan	16.08.72	09.02.2009

2. The above named Officers have assumed charge of the post of Section Officer with effect from the dates shown against their names.

BHASKAR BHATT, Administrative Officer  
(PB-I & III)

No. 07/PB-I/2009—The Ministry of External Affairs regrets to announce the sad demise of Sh. Vicky Kakkar (DoB : 15.10.1962), an Officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) on 25th March, 2009. His name has, therefore, been deleted from the rolls of this Ministry.

BHASKAR BHATT, Administrative Officer  
(PB-I & III)

The 1st April 2009

No. 08/PB-I/2009—Consequent upon acceptance of his request for voluntary retirement under Rule 48 of CCS Pension Rules, Shri Narinder Sharma (DoB : 26.09.1950), an Officer of the Integrated Grades II & III of General Cadre of Indian Foreign Service (B) has retired from Government Service in the forenoon of 01.04.2009 and relinquished charge of the post of Section Officer in the Ministry of External Affairs in the forenoon of 01st April, 2009.

BHASKAR BHATT, Administrative Officer  
(PB-I & III)

#### MINISTRY OF FINANCE

#### (DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 26th May 2009

No. A-19011/6/2009-Admn. II—The President is pleased to appoint Shri Prabhat Kumar Mishra, IAS (WB : 93), as Director, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, with effect from the forenoon of 25th May, 2009 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 19th May 2009

No. A-22011/1/2009-Admn. IA—The President is pleased to appoint Ms. Manisha Sensarma, a Junior Administrative Grade (JAG) Level Officer of IES, as Deputy Economic Adviser in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the afternoon of 8th May, 2009 and until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

The 25th May 2009

No. A-12011/15/08-Ad-IA—In continuation of this Department's Notification No. A-12011/15/08-Ad. IA dated 16th March, 2008, the term of deputation of Shri M. V. Vasudevan in the post of Deputy Director (DMO), Group "A" Gazetted in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/- as Grade Pay (Rs. 10,000—15,200/- pre-revised) in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs is further extended for a period w.e.f. 31.03.2009 to 26.02.2010.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

The 26th May 2009

No. A-12011/4/2008-Admn. IA—The President is pleased to appoint Smt. Dakshita Das (IRAS : 86) as Controller of

Aid, Accounts and Audit in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the scale of pay of Rs. 37,000—67,000/- with Rs. 10,000/- as Grade Pay (Revised) on deputation basis w.e.f. the afternoon of 14.05.2009 upto 11.10.2009 or until further orders.

NEELAM VOHRA, Under Secy.

New Delhi, the 1st June 2009

No. 6/3/2004-MI-II—Shri Pranab Mukherjee, Minister of Finance, Government of India has been appointed India's Governor on the Board of Governors of the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), International Development Association (IDA), International Finance Corporation (IFC) and Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) with effect from 25th May, 2009 vice Shri P. Chidambaram.

SOUMYA CHATTOPADHYAY, Under Secy. (MI)

#### DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 23rd March 2009

No. 12/4/2009-DRT—The Central Government is pleased to appoint Shri S. K. Pandey, Deputy Director, Ministry of Defence to the post of Recovery Officer in the Debts Recovery Tribunal-I, Ahmedabad on deputation basis, in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- for a period of three years w.e.f. 02.02.2009 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Dy. Secy.

The 27th March 2009

No. 11/4/2009-DRT—The Central Government is pleased to appoint Shri Bhanu Pratap Singh, Junior Scientific Officer (Ballistics), Central Forensic Science Laboratory, Chandigarh to the post of Assistant Registrar in the Debts Recovery Tribunal-II, Chandigarh on deputation basis, in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- for a period of three years w.e.f. 06.02.2009 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Dy. Secy.

No. 12/3/2009-DRT—The Central Government is pleased to appoint Dr. Ram Pravesh Sharma, Chief Manager, Allahabad Bank to the post of Recovery Officer in the Debts Recovery Tribunal-II, Delhi on deputation basis, in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- for a period of three years w.e.f. 07.11.2008 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

A. THOMAS, Dy. Secy.

New Delhi, the 29th May 2009

No. A-12026/3/2006-DRT—On attaining the age of 65 years, Justice T. V. Masilamani, Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai, will demit the charge of Chairperson with effect from 29th May, 2009 (AN).

In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 8 of the Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act, 1993, the Central Government hereby, authorizes Justice Allah Raham, Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal, Mumbai, to discharge the functions of Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal, Chennai, also with immediate effect until further orders.

V. P. BHARDWAJ, Director

#### DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 29th May 2009

No. PFG (2193)/Admn.I/2009—Shri B. M. Singh, Section Officer of CSS Cadre of Ministry of Finance, Department of Expenditure stands retired on attaining the age of superannuation from Government Service with effect from the afternoon of the 31st May, 2009.

2. His name will be struck off from the rolls of this Department from that date.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

No. PFG (2256)/Admn.I/2009—Shri A. K. Kakar, Senior Principal Private Secretary of CSSS Cadre of Ministry of Finance, Department of Expenditure stands retired on attaining the age of superannuation from Government Service with effect from the afternoon of the 31st May, 2009.

2. His name will be struck off from the rolls of this Department from that date.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

No. A-12026/5/2007-Ad. I—The President is pleased to appoint Shri Shrikant Walgad, IAS (HY : 91) as Director in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the Pay Band PB-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Rs. 8,700/- (Grade Pay) on Central Deputation for a period of five years with effect from the forenoon of the 29th May, 2009 or until further orders, whichever event takes place earlier.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

The 1st June 2009

No. A-12023/3/2004-Ad. II—Consequent upon his transfer from the Ministry of Statistics and Programme

Implementation vide Order No. 12016/2/2009-SSS dated 31.03.2009, the President is pleased to appoint Shri Madan Mohan, Statistical Investigator Grade-I of the Subordinate Statistical Service as Senior Investigator in the Department of Expenditure, Ministry of Finance w.e.f. 28.05.2009 (FN) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/-.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

#### MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

New Delhi, the 29th April 2009

No. A-42011/4/2006-Estt.—The President is pleased to extend the deputation tenure of Professor Ravi Shankar Srivastava as Full-Time Member in the National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises for the period from 01.04.2009 to 30.04.2009, or until further orders, whichever is earlier.

P. S. VERMA, Under Secy.

#### MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

##### (DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 27th May 2009

No. A-12011/8/2006-Estt.—In continuation of this Department's Office Order No. 18/2009 dated the 26th March, 2009, the President is pleased to appoint Shri Anshul Singh, a regular Metrological Assistant in the Department of Consumer Affairs, as Assistant Director (Legal Metrology) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) plus Grade Pay of Rs. 5,400/- on purely adhoc basis with effect from the forenoon of the 28th April, 2009 in Regional Reference Standards Laboratory, Guwahati, for a period of one year or till he is appointed on regular basis in consultation with the UPSC or until further orders, whichever is the earliest.

2. This adhoc promotion would not bestow on Shri Anshul Singh any right to claim regular promotion, seniority etc. in the Grade of Assistant Director (Legal Metrology).

PREMA BHATT, Under Secy.

#### DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

New Delhi, the 4th May 2009

No. 6-1/2006-BP-II (Notification)—The Central Vigilance Committee under Justice D. P. Wadhwa was constituted in pursuance of the Supreme Court Order dated 12.07.2006 in the matter of Writ Petition (Civil) No. 196 of 2001 PUCL versus Union of India to go into the maladies which are affecting proper functioning of Public Distribution System (PDS) vide notification of even number dated 01.12.2006.

The tenure of the Central Vigilance Committee was extended up to 31.08.2007 as per the directions of Supreme Court vide notification of even number dated 08.05.2007. The term of Central Vigilance Committee was further extended for six months w.e.f. 11.01.2008 vide notification of even number dated 13.02.2008 and the intervening period w.e.f. 01.09.2007 to 10.01.2008 was treated as the extended period of the Central Vigilance Committee as per the directions of Supreme Court vide notification of even number dated 08.04.2008. The term of the Central Vigilance Committee was further extended up to April, 2009 as per the directions of Supreme Court dated 11.07.2008 vide notification of even number dated 18.07.2008.

2. The Supreme Court of India vide its order dated 17.04.2009 has extended the time for submission of the report by the Central Vigilance Committee till the end of December, 2009. Therefore, the term of Central Vigilance Committee is extended till the end of December, 2009.

BHAGWAN SAHAI, Jt. Secy.

#### MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 20th May 2009

No. 19011/01/2008-IFS-I—Shri P. R. Mohanty, an Indian Forest Service Officer of 1972 Year of Allotment borne on Orissa Cadre of IFS, presently working as the Director General of Forests and Special Secretary to the Government of India in the Ministry of Environment and Forests on deputation under the Central Staffing Scheme on the Ministry of Environment and Forests, is going to retire on superannuation w.e.f. the afternoon of 31st May, 2009.

A. K. LAL, Director

New Delhi-110003, the 12th May 2009

No. A-12012/3/2009-P. II (.)—The President is pleased to appoint Shri A. A. Rao, IIS (87) as Director in the Pay Band-4 Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/- in the Ministry of Environment and Forests with effect from the forenoon of 1st May, 2009 for a period up to 05.07.2011 or until further orders, whichever event takes place earlier. His tenure will be within the combined tenure of seven years permissible at the Centre as Private Secretary to the Minister and Deputy Secretary/Director.

PREMA MOHAN, Under Secy.

The 15th May 2009

No. A-32012/02/2005-P.II (.)—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O. M. No. 5/6/2004-CS.II dated 6th February, 2009, the President is pleased to appoint Smt. Saraswati Rajagopalan, PPS (adhoc) in the Ministry of Environment and Forests, on regular basis in the Select List Year 2004 of Principal Private Secretary

Grade of CSSS Cadre of the Ministry of Environment and Forests w.e.f. 6th February, 2009.

2. This Notification is issued in supersession of Notification of even No. dated 03.03.2008.

PREMA MOHAN, Under Secy.

New Delhi, the 11th May 2009

No. A-32012/02/2005-PII (.)—The President is pleased to appoint Sh. H. C. Narang, an adhoc Sr. Principal Private Secretary of CSSS Cadre of the Ministry of Environment and Forests as Sr. Principal Private Secretary of CSSS, in the Ministry of Environment and Forests, in the Pay Band-III, Rs. 15,600—39,100/-, with Grade Pay 7,600/- on his inclusion in the Select List of Senior Principal Private Secretary of CSSS for the year 2006 vide the Department of Personnel and Training O. M. No. 5/18/2005-CS. II dated 12th August 2008.

PREMA MOHAN, Under Secy.

#### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 27th May 2009

No. A-38012/5/09/CHS II—Dr. Manoranjan Jha an officer of General Duty Sub-cadre of Central Health Service posted as SMO, ROH&FW, Patna died in harness on 12.02.09.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

#### DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 26th May 2009

No. A-38013/3/2008-Admn.-I—Shri Ved Prakash Dubey, Section Officer of the Directorate General of Health Services retired from Government Service on attaining the age of superannuation on 31.03.2009 (AN).

R. K. KALRA, Dy. Director Admn.

#### MINISTRY OF AGRICULTURE

##### (DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 2nd April 2009

No. 12023/10/2007-E.II—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Gorakh Singh, Principal Scientist, Central Institute for Subtropical Horticulture, Lucknow to the post of Horticulture Commissioner in the Pay Scale of Rs. 37,400 67,000/- (Pay Band-4; Grade Pay Rs. 10,000/-) in the Department of Agriculture and Cooperation on deputation basis for a period of 5 years w.e.f. 1st April, 2009 or until further orders, whichever is earlier.

A. K. ARORA, Under Secy.

#### MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

New Delhi, the 29th May 2009

No. A-19011/5/2009-Estt—The President is pleased to appoint Smt. Rajwant Sandhu, IAS (HP : 75) on in-situ elevation as Special Secretary in Ministry of Panchayati Raj with effect from 17th May, 2009 and until further orders.

She will draw pay at the rate of Rs. 80,000/- (Fixed) (Rupees eighty thousand only) per month from the date of her appointment as Special Secretary.

L. HAOKIP, Under Secy.

#### MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 19th May 2009

No. 4-6/2004-Admn—The President is pleased to appoint Dr. Shreeranjana, IAS (AM : 85) as Joint Secretary in the Pay Band of Rs. 37,000—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 10,000/- in the Ministry of Women and Child Development with effect from the forenoon of 19th May 2009 and up to the afternoon of 18th May, 2014 or until further orders, whichever event takes place earlier, in pursuance of DoPT's Order No. 4/9/2009-EO (SM.I) dated 17th April, 2009.

SHAKUNTALA JAIN, Under Secy.

No. 4-6/2004-Admn—Consequent upon completion of her Central Deputation tenure on 16.05.2009, the President is pleased to relieve Dr. (Smt.) Loveleen Kacker, IAS (MP : 79), Joint Secretary, from the Ministry of Women and Child Development with effect from 16.05.2009 (AN) with direction to report to her parent cadre for further posting.

SHAKUNTALA JAIN, Under Secy.

The 29th May 2009

No. 4/159/87-Admn—Consequent upon his attaining the age of superannuation, Shri Ashok Kumar Gandhi, Section Officer in the Ministry of Women and Child Development stand retired from Government service with effect from 31.05.2009 (afternoon).

SHAKUNTALA JAIN, Under Secy.

#### MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

New Delhi, the 14th May 2009

No. F.1-18/2004-Y.S.I—In pursuance of Rule 9(a) of Rules of the Nehru Yuva Kendra Sangathan, Sri Jagdeep Singh Cheema is hereby nominated as Member, by the Government of India, to the Board of Governors of Nehru Yuva Kendra Sangathan against one vacancy under eminent persons with immediate effect.

2. The term of membership of Shri Jagdeep Singh Cheema will be three years from the date of his nomination or till further orders, whichever is earlier. This will be subject to other provisions of the Bye-laws and Rules of Nehru Yuva Kendra Sangathan.

D. P. BHARDWAJ, Dy. Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND  
EMPOWERMENT

New Delhi, the 28th April 2009

No. A-12025/1/95-Estt.-II—The President is pleased to appoint Smt. P. Rajwanshi a substantive Senior Research Investigator in the PREM Division of the Ministry of Social Justice and Empowerment, as Research Officer in that Division in the Pay Band-2 carrying pay scale of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- (General Central Service, Group 'A', Gazetted) on adhoc basis for a period of six months w.e.f. 24.04.2009 (I'N), or until further orders, whichever is earlier.

2. This adhoc appointment will not confer on her any claim for regular appointment to the post of Research Officer or to the seniority of that post.

R. A. SINGH, Under Secy.

New Delhi-110001, the 19th May 2009

No. A-19011/5/2004-Estt—On completion of his tenure of Central Deputation, the President is pleased to relieve Shri V. B. Pachnanda, IOFS (90), Director, of his duties in the Ministry of Social Justice and Empowerment w.e.f. the afternoon of 18.05.2009.

2. Further Shri Pachnanda is granted Earned Leave for a period of 31 days w.e.f. 19.05.2009 to 18.06.2009. After the expiry of the above said leave, the services of Shri Pachnanda will stand placed at the disposal of his parent cadre i.e. Ministry of Defence (Ordnance Factories Cell).

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND  
INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 28th May 2009

No. 2(37)/76-Pers.-I—On attaining the age of superannuation, Shri S. Ramakrishnan, Scientist 'G' (Emp. Code No. 69) in the Department of Information Technology, presently working as Director General, Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC), Pune on deputation on foreign service terms, retires from service with effect from afternoon of 31.05.2009.

GIRISH SAHAI, Dy. Director

The 29th May 2009

No. 4(741)/2006-Pers.-I—On attaining the age of superannuation, Shri Jainder Singh, IAS (AP : 72) (E. Code 09), Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology will retire from service with effect from the afternoon of 31.05.2009.

GIRISH SAHAI, Dy. Director

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 21st May 2009

No. 0555/NIC/2009-Adm-II—The Director General, National Informatics Centre in exercise of the powers conferred under Rule 15(4) of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 has imposed the penalty of "Compulsory Retirement" on Sh. Jagbir Singh, Private Secretary (Emp. Code No. 0555) w.e.f. 29.04.2009.

P. S. PILLAI, Dy. Director (Adm-II)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 25th May 2009

No. 2005/E (GR) I/9/1—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Service of Signal Engineers with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name	Date of Joining
	S/Shri/Ms.	
1.	Yashvir Singh Guleria	05.09.2005
2.	Vikas Shivrayan	05.09.2005
3.	Brijender Mani Tripathi	21.11.2005
4.	Manoj Kumar Singh	22.09.2005
5.	Mudit Anand	05.09.2005
6.	Nitin Prakash	05.09.2005
7.	Ravindra Kumar Chowdhary	05.09.2005

MAMTA KANDWAL, Dy. Director, Estt. (GR)

No. 2004/(GR) I/8/1—The President is pleased to appoint the following probationers in the Indian Railway Stores Service with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name	Date of Joining
	S/Shri/Ms	
1.	Santosh Kumar Mishra	10.09.2004
2.	Pravesh Kumar	08.09.2004

MAMTA KANDWAL, Dy. Director, Estt. (GR)

New Delhi, the 27th May 2009

No. E(GP)2007/3/3—The President is pleased to approve of the undermentioned 50 Group-B officers of Electrical Engineering Department of Indian Railways, being appointed to the Junior Scale of Indian Railway Service of Electrical Engineers (IRSEE) with effect from 30.03.2009 on the Railways mentioned against each:—

Panel for 2008-2009

Name of the Officer

S/Shri

Central Railway

1. Girish Kumar C. Solanki (SC) (Promoted against SC Vacancy)

2. I. A. Khan

R. C. F.

1. Raghuveer Singh (SC)

D. L. W.

1. Ashok Kumar (SC) (Promoted against SC Vacancy)

East Coast Railway

1. S. K. Jena

2. U. N. Mukut

3. R. V. Raja Rao

4. P. K. Mahapatra (SC) (Promoted against SC Vacancy)

Eastern Railway

1. Kunal Mukherjee

2. Subhash Ch. Pal

3. Soumen Saha

4. A. K. Haldar (SC) (Promoted against SC Vacancy)

5. S.P. Sen (SC) (Promoted against SC Vacancy)

6. Dilip Sarkar (SC) (Promoted against SC Vacancy)

7. Ajay Kumar (ST) (Promoted against ST Vacancy)

Northeast Frontier Railway

1. A. Kundu

2. D. Kahali

3. A. Gupta

Northern Railway

S/Shri

1. Vinod Singh Chauhan

R. W. F.

1. R.N. Pranesh Rao

2. T. G. Ramesh

South Central Railway

1. K. Premmohan

2. A. V. Mallikharjuna Rao

3. B. Satyanarayana (SC) (Promoted against SC Vacancy)

4. N. Ganga Raju (ST) (Promoted against ST Vacancy)

South East Central Railway

1. M. K. Tiwari

2. Gitam Singh (SC)

South Eastern Railway

1. A. R. Das

2. S. Samanta

3. J. Mahanta

4. D. K. Hazra

5. S. D. Sharma

6. Debjit Mishra

7. Jayanta Kumar

8. B. C. Roy (SC)

9. S. Aind (ST) (Promoted against ST Vacancy)

Southern Railway

1. S. Naseer Ahmed

2. T. C. Johnson

3. V. A. Kuhadevarao (SC)

4. S. K. Natarajan

5. Subramanian. M.

6. Mohanan Pillai. K.

7. P. K. Selvan (ST) (Promoted against ST Vacancy)

West Central Railway

1. Bharat Bhusan (SC) (Promoted against SC Vacancy)

Western Railway

1. Malvinder Singh

2. S. K. Yadav

3. M. C. Panchal



- S/Shri  
4. Sunil K. Gupta  
5. D. P. Soni  
6. K. P. Mishra

K. B. L. MITTAL, Secy./  
Railway Board

## MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 28th May 2009

No. 13/2009 F. No. 25/3(26)/2008-E.I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2007 the President is pleased to appoint Shri Anurag Srivastava to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-‘A’) Service in the PB-3 pay scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Central Water Commission with effect from 01.04.2009 (FN).

2. Shri Anurag Srivastava will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.

No. 14/2009 F. No. 25/3(24)/2008-E.I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2007 the President is pleased to appoint Shri Syed Faheem Haider Abidi to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-‘A’) Service in the PB-3 pay scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Central Water Commission with effect from 08.04.2009 (FN).

2. Shri Syed Faheem Haider Abidi will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.

No. 16/2009 F. No. 25/3(7)/2008-E.I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2007 the President is pleased to appoint Shri Abhishek Gupta to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-‘A’) Service in the PB-3 pay scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Central Water Commission with effect from 15.04.2009 (FN).

2. Shri Abhishek Gupta will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.

No. 17/2009 (F. No. 25/3(4)/2008-E.I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2007 the President is pleased to appoint Miss Lakshmi Kumari to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-‘A’) Service in the PB-3 pay scale of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Central Water Commission with effect from 31.03.2009 (FN).

2. Miss Lakshmi will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 29th May 2009

No. A-22017/1/2007-Admn.I.—The President is pleased to appoint Dr. D. Suresh, IAS (HY : 1995), presently working as Deputy Secretary in the Ministry of Urban Development as Director in the scale of pay/Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay of Rs. 8,700/- in this Ministry w.e.f. 01.07.2009 (FN) or from the date of his taking over the charge of the post, whichever is later, by upgrading the post of Deputy Secretary presently held by him to the level of Director as a measure personal to him, for the balance period of his tenure i.e. upto 02.03.2011 or until further orders, whichever event takes place earlier.

S. N. JASRA, Under Secy. (Admn.)

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 29th May 2009

No. Q-16012/2/2009-ESA (NLI)—Whereas the V. V. Giri National Labour Institute, Sector-24, Noida has been registered as a Society under the Societies Registration Act, 1860 (Punjab Amendment Act, 1957).

And Whereas Rule-III of the Rules & Regulations of the said Society provides for its constitution.

Now the term of the existing General Council of V. V. Giri National Labour Institute, Noida, with the approval of the Hon'ble LEM, has been extended for a period of three months beyond 29.05.2009 or until further orders.

PRADEEP GAUR, Under Secy.

## DIRECTORATE GENERAL OF MINES SAFETY

Dhanbad, the 27th May 2009

No. Law/G-22/09/319—I, Surinder Jit Sibal, Chief Inspector of Mines and also designated as Director General of Mines Safety, by virtue of powers conferred on me under Section 75 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952) and in supersession of all the notifications published earlier in

the Gazette of India on the subject do hereby generally authorize all officers of this Directorate who are sub-ordinate to the Chief Inspector of Mines and who are appointed as Inspectors of Mines under sub-section (1) of Section 5 of the said Act, to institute prosecutions for any offence under the said Act, against the owner, agent or manager of

any mine situated within their respective Inspection Jurisdiction as declared under sub-section (3) of section 6 of the said Act.

SURJINDER JIT SIBAL, Chief Inspector of  
Mines & Director General of Mines Safety